



**OFFICE USE ONLY**

केवल आधिकारिक  
प्रयोग के लिए

**Return to:**

यहाँ वापस भेजें:

Customer's name

उपभोक्ता का नाम

Centrelink Reference Number

Centrelink रेफरेंस नम्बर (संदर्भ संख्या)

the Australian Government Department of Human Services

ऑस्ट्रेलियाई सरकार Department of Human Services



**1 Indian payment claimed or received**

क्लेम किया गया या प्राप्त भारतीय भुगतान

Retirement   
रिटायरमेंट

Permanent Total Disability Pension   
स्थायी संपूर्ण विकलांगता पेंशन

Widows/Survivors Pension   
विधवा/उत्तरजीवी पेंशन

Other  Give details below  
अन्य  विवरण नीचे दें

If your partner is now deceased, please fill in 'Your partner' details at questions 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 17 ONLY.

यदि आपके पार्टनर (सहजीवी) का देहांत हो गया है, तो कृपया केवल प्रश्न 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 17 पर ही 'आपका पार्टनर' विवरण भरें।

**You/आप**

**2 Your name**

आपका नाम

Mr  Mrs  Miss  Ms  Other   
श्रीमान श्रीमती कुमारी सुश्री अन्य

Family name

पारिवारिक नाम

First given name

प्रथम नाम

Second given name

द्वितीय नाम

**Your partner/आपका पार्टनर**

**2 Your name**

आपका नाम

Mr  Mrs  Miss  Ms  Other   
श्रीमान श्रीमती कुमारी सुश्री अन्य

Family name

पारिवारिक नाम

First given name

प्रथम नाम

Second given name

द्वितीय नाम



**You/आप**

- 3** Have you ever used or been known by any other name (e.g. name at birth, maiden name, previous married name, Aboriginal or tribal name, alias, adoptive name, foster name)?

क्या आपने कभी किसी अन्य नाम का प्रयोग किया है या क्या आपको किसी अन्य नाम से जाना गया है (उदाहरणतः जन्म के समय का नाम, विवाहपूर्व कुलनाम, पिछले विवाह से जुड़ा आपका नाम, एबोरिजनल (जनजातीय) या ट्राइबल (आदिवासी) नाम, कल्पित नाम, दत्तक नाम, पालक (फॉस्टर) नाम)?

No  Go to next question  
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes  Give details below  
हाँ विवरण नीचे दें

**1** Other name

अन्य नाम

Type of name (e.g. name at birth)

नाम का प्रकार (उदाहरणतः जन्म के समय का नाम)

**2** Other name

अन्य नाम

Type of name (e.g. maiden name)

नाम का प्रकार (उदाहरणतः जन्म के समय का नाम)

If you have more than 2 other names, attach a separate sheet with details.

यदि आपके 2 से अधिक अन्य नाम हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें

- 4** Your gender

आपका लिंग

Male   
पुरुष

Female   
महिला

- 5** Your date of birth

आपकी जन्म-तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

- 6** Place of birth

जन्म स्थान

Country देश
----------------

**Your partner/आपका पार्टनर**

- 3** Have you ever used or been known by any other name (e.g. name at birth, maiden name, previous married name, Aboriginal or tribal name, alias, adoptive name, foster name)?

क्या आपने कभी किसी अन्य नाम का प्रयोग किया है या क्या आपको किसी अन्य नाम से जाना गया है (उदाहरणतः जन्म के समय का नाम, विवाहपूर्व कुलनाम, पिछले विवाह से जुड़ा आपका नाम, एबोरिजनल (जनजातीय) या ट्राइबल (आदिवासी) नाम, कल्पित नाम, दत्तक नाम, पालक (फॉस्टर) नाम)?

No  Go to next question  
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes  Give details below  
हाँ विवरण नीचे दें

**1** Other name

अन्य नाम

Type of name (e.g. name at birth)

नाम का प्रकार (उदाहरणतः जन्म के समय का नाम)

**2** Other name

अन्य नाम

Type of name (e.g. maiden name)

नाम का प्रकार (उदाहरणतः जन्म के समय का नाम)

If you have more than 2 other names, attach a separate sheet with details.

यदि आपके 2 से अधिक अन्य नाम हैं, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें

- 4** Your gender

आपका लिंग

Male   
पुरुष

Female   
महिला

- 5** Your date of birth

आपकी जन्म-तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
/	/	/

- 6** Place of birth

जन्म स्थान

Country देश
----------------

**You/आप****7 What are your countries of citizenship or nationality?**

आपको किन देशों की नागरिकता या राष्ट्रियता प्राप्त है?

Australia    
 ऑस्ट्रेलिया

Date of grant

ग्रांट (अनुदान) किए जाने की तिथि

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Other    
 अन्य

Please list all other countries where you have citizenship or nationality.

कृपया उन सभी अन्य देशों के नाम लिखें जिसकी आपको नागरिकता या राष्ट्रियता प्राप्त है।


**8 Indian EPF Account Number, Universal Access Number (UAN) or Pension Payment Order (PPO) Number (if known)**

भारतीय EPF एकाउंट नम्बर, युनिवर्सल ऐक्सेस नम्बर (UAN) या पेंशन पेयमेंट आर्डर (PPO) नम्बर (यदि ज्ञात हो तो)

--

**9 Your permanent address**

आपका स्थायी पता

Country देश

**10 Your postal address (if different to above)**

आपका डाक पता (यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो)

Country देश

**Your partner/आपका पार्टनर****7 What are your countries of citizenship or nationality?**

आपको किन देशों की नागरिकता या राष्ट्रियता प्राप्त है?

Australia    
 ऑस्ट्रेलिया

Date of grant

ग्रांट (अनुदान) किए जाने की तिथि

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Other    
 अन्य

Please list all other countries where you have citizenship or nationality.

कृपया उन सभी अन्य देशों के नाम लिखें जिसकी आपको नागरिकता या राष्ट्रियता प्राप्त है।


**8 Indian EPF Account Number, Universal Access Number (UAN) or Pension Payment Order (PPO) Number (if known)**

भारतीय EPF एकाउंट नम्बर, युनिवर्सल ऐक्सेस नम्बर (UAN) या पेंशन पेयमेंट आर्डर (PPO) नम्बर (यदि ज्ञात हो तो)

--

**9 Your permanent address**

आपका स्थायी पता

Country देश

**10 Your postal address (if different to above)**

आपका डाक पता (यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो)

Country देश

11 Please read this before answering the question.

कृपया प्रश्न का उत्तर देने से पहले इसे पढ़ें।

Select **ONE** option below that best describes your current relationship status.

नीचे **एक** विकल्प चुनें जो आपकी वर्तमान सम्बन्ध स्थिति (रिलेशनशिप स्टेटस) का वर्णन सबसे अच्छी तरह से करता हो।

What is your **CURRENT** relationship status?

आपकी **वर्तमान** सम्बन्ध स्थिति (रिलेशनशिप स्टेटस) क्या है?

**Married**

विवाहित

**Go to 12**  
12 पर जाएँ

**Registered relationship**

(relationship registered under Australian state or territory laws or laws of other countries or regions)

**Go to 12**  
12 पर जाएँ

**पंजीकृत सम्बन्ध**

(ऑस्ट्रेलियाई राज्य या राज्य-क्षेत्र के कानूनों या अन्य देशों या क्षेत्रों के कानूनों के अधीन रजिस्टर्ड संबंध)

**Partnered**

(living together in a relationship, including de facto)

**Go to 13**  
13 पर जाएँ

**पार्टनर के साथ**

(किसी रिश्ते में बंधकर एक साथ रहना, इसमें डि फेक्टो शामिल है)

**Separated**

(previously lived with a partner, including in a marriage, registered or de facto relationship)

**Go to 18**  
18 पर जाएँ

**अलग-अलग रह रहे/रही हैं**

(पहले किसी पार्टनर के साथ रहे हैं, इसमें विवाह का, रजिस्टर्ड या डि फेक्टो संबंध शामिल है)

**Divorced**

तलाकशुदा

**Go to 18**  
18 पर जाएँ

**Widowed**

(previously partnered, including in a marriage, registered or de facto relationship)

**Go to 17**  
17 पर जाएँ

**विधवा/विधुर**

(पहले कोई पार्टनर रह चुका है, इसमें विवाह से, रजिस्टर्ड या डि फेक्टो संबंध से पार्टनर का होना शामिल है)

**Never married or lived with a partner**

कभी विवाह नहीं हुआ या कभी किसी पार्टनर के साथ नहीं रहे/रही

**Go to 20**  
20 पर जाएँ

12 What is your date of marriage or relationship registration?

आपकी विवाह की तिथि या संबंध का पंजीकरण कराने की तिथि क्या है?

If you have **ever been separated**, list the date that you most recently reconciled with your partner.

यदि आप **अपने पति या अपनी पत्नी से कभी अलग हुई/हुए हैं**, तो वह तिथि लिखें जिस दिन से आप सबसे हाल ही में अपने पार्टनर से दोबारा समझौता हुआ है।

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Country where you married or your relationship was registered.

वह देश जहाँ आपका विवाह हुआ था या आपके सम्बन्ध का पंजीकरण हुआ था।

**Go to 14**  
14 पर जाएँ

13 When did you and your partner start living together?

आपने और आपके पार्टनर (सहजीवी) ने एक साथ रहना कब शुरू किया था?

If you have **ever been separated**, list the date that you most recently reconciled with your partner.

यदि आप **अपने पति या अपनी पत्नी से कभी अलग हुई/हुए हैं**, तो वह तिथि लिखें जिस दिन से आप सबसे हाल ही में अपने पार्टनर से दोबारा समझौता हुआ है।

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

14 Do you currently live in the same home as your partner?

क्या आप वर्तमान में अपने पार्टनर (सहजीवी) के साथ एक ही घर में रहते/रहती हैं?

No  **Go to next question**  
नहीं अगले प्रश्न पर जाएँ

Yes  **Go to 20**  
हाँ 20 पर जाएँ

15 Why are you not living with your partner?

आप अपने पार्टनर (सहजीवी) के साथ क्यों नहीं रह रहे/रही हैं?

Partner's illness   
आपका पार्टनर बीमार है

Your illness   
आप बीमार है

Partner in prison   
पार्टनर जेल में है

Partner's employment   
पार्टनर की नौकरी के कारण

Other  **Give details below**  
अन्य विवरण नीचे दें

.....

**16** Period not living with your partner.  
अपने पार्टनर (सहजीवी) के साथ न रहने की अवधि

From कब से  Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

To कब तक  Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

**OR** Indefinite  **Go to 20**  
या अनिश्चित काल तक **20 पर जाएँ**

**17** Please give the following details about your deceased partner.

कृपया अपने स्वर्गवासी पार्टनर (सहजीवी) के बारे में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें।

Date of death

मृत्यु तिथि

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Country where partner died

उस देश का नाम जहाँ पार्टनर का देहांत हुआ था

► **Go to 20**  
**20 पर जाएँ**

**18** Do you live in the same home as your former partner?

क्या आप उसी घर में रहते/रहती हैं जहाँ आपका पुराना पार्टनर रहता है?

No   
नहीं

Yes   
हाँ

**19** Please give the following details about your former partner.

कृपया अपने पुराने पार्टनर के बारे में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें।

Full name

पूरा नाम

Date of birth

जन्म तिथि

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Date relationship ended

सम्बन्ध समाप्त होने की तिथि

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Current address (if known)

वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो तो)

.....  
.....  
.....

Country

देश

► **Go to 20**  
**20 पर जाएँ**

Residence details

रिहायशी विवरण

**20** Please read this before answering the following questions.

कृपया निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने से पहले इसे पढ़ें।

If claiming a Survivor Pension, please give details about your deceased partner for questions 21 to 29.

यदि आप उत्तरजीवी (सर्वाइवर) पेंशन के लिए क्लेम कर रहे/रही हैं, तो कृपया प्रश्न 21 से 29 के लिए अपने स्वर्गवासी पार्टनर से सम्बन्धित विवरण दें।

**21** Were you born in Australia?

क्या आपका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था?

No  **Go to next question**  
नहीं **अगले प्रश्न पर जाएँ**

Yes  **Go to 27**  
हाँ **27 पर जाएँ**

**22** What date did you first arrive in Australia?

आप सबसे पहले किस दिनांक को ऑस्ट्रेलिया आए थे/आई थी?

Be as accurate as possible, even if you can only remember the year you first arrived in Australia.

जितना संभव हो उतना सही उत्तर दें, भले ही आपको अपने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आने का केवल वर्ष की याद हो।

Arrival date

आगमन तिथि

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Ship  **Name of ship**  
समुद्री जहाज **समुद्री जहाज का नाम**

Airline  **Name of airline/Flight number**  
एयरलाइन **एयरलाइन का नाम/फ्लाइट नम्बर**

Place of arrival

आगमन का स्थान

**23** How long did you live in Australia?

आप ऑस्ट्रेलिया में कितनी अवधि के लिए रहे थे/रही थी?

Be as accurate as possible, even if you can only remember the years you first arrived in Australia.

जितना संभव हो उतना सही उत्तर दें, भले ही आपको अपने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आने का केवल वर्ष ही याद हो।

Year/साल / Month/महीना

- 24** What was the date of your most recent departure from Australia?  
ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने की आपकी सबसे हाल ही की दिनांक कौन सी है?

Be as accurate as possible, even if you can only remember the year you first arrived in Australia.

जितना संभव हो उतना सही उत्तर दें, भले ही आपको अपने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आने का केवल वर्ष ही याद हो।

**Departure date**

प्रस्थान तिथि

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

Ship  Name of ship  
समुद्री जहाज समुद्री जहाज का नाम

Airline  Name of airline/Flight number  
एयरलाइन एयरलाइन का नाम/फ्लाइट नम्बर

**Place of departure**

प्रस्थान करने का स्थान

- 25** List all absences from Australia between your date of arrival and the date of your most recent departure.

अपनी आगमन तिथि और अपने सबसे हाल ही की प्रस्थान तिथि के बीच की सभी अनुपस्थितियों को सूचीबद्ध करें।

Do NOT include holidays or short trips.

छुट्टियों या छोटी यात्राओं को शामिल न करें।

**1 Destination**

डेस्टिनेशन (गंतव्य स्थान)

From

कब से

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

To

कब तक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

**2 Destination**

डेस्टिनेशन (गंतव्य स्थान)

From

कब से

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

To

कब तक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

- 25 Continued**

जारी है

**3 Destination**

डेस्टिनेशन (गंतव्य स्थान)

From

कब से

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

To

कब तक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

**4 Destination**

डेस्टिनेशन (गंतव्य स्थान)

From

कब से

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

To

कब तक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

**5 Destination**

डेस्टिनेशन (गंतव्य स्थान)

From

कब से

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

To

कब तक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

**6 Destination**

डेस्टिनेशन (गंतव्य स्थान)

From

कब से

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

To

कब तक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

**7 Destination**

डेस्टिनेशन (गंतव्य स्थान)

From

कब से

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

To

कब तक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

**8 Destination**

डेस्टिनेशन (गंतव्य स्थान)

From

कब से

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

To

कब तक

Day/दिन	Month/महीना	Year/साल
---------	-------------	----------

If you require more space, attach a separate sheet with details.

यदि आपको और अधिक स्थान चाहिए, तो विवरण प्रदान करते हुए एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।



If we are not able to verify your Australian residence we will need to contact people who knew you in Australia.

यदि हम आपके ऑस्ट्रेलियाई निवास की पुष्टि नहीं कर पाते हैं तो हमें उन लोगों से संपर्क करने की आवश्यकता होगी जिन्हें आप ऑस्ट्रेलिया में जानते थे/जानती थी।

Give the names, addresses and telephone numbers of 3 people, not related to you, who are currently living in Australia and can confirm your residence in Australia.

उन 3 लोगों के नाम, पते और टेलीफोन नम्बर बताएँ जो आपसे सम्बन्धित नहीं हैं, और जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में आपके निवास की पुष्टि कर सकते हैं।

### 1 Full name

पूरा नाम

### Address

पता

  
  


Postcode  
पोस्टकोड

### Contact phone number

संपर्क फोन नम्बर

Area code ( )  
एरिया कोड

### Known for period

जान-पहचान की अवधि

From

कब से

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

To

कब तक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

### 2 Full name

पूरा नाम

### Address

पता

  
  


Postcode  
पोस्टकोड

### Contact phone number

संपर्क फोन नम्बर

Area code ( )  
एरिया कोड

### Known for period

जान-पहचान की अवधि

From

कब से

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

To

कब तक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

जारी है

### 3 Full name

पूरा नाम

### Address

पता

  
  


Postcode  
पोस्टकोड

### Contact phone number

संपर्क फोन नम्बर

Area code ( )  
एरिया कोड

### Known for period

जान-पहचान की अवधि

From

कब से

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

To

कब तक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल





Statement

बयान

### 31 Statement

**I declare that:**

- the information I have provided on this form is correct.

**I understand that:**

- giving false or misleading information is a serious offence.
- the Australian Government Department of Human Services can make relevant enquiries necessary to make sure I receive the correct entitlement.

बयान

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि:

- मेरे द्वारा इस फॉर्म में प्रदान की गई सूचना सही है।

मैं यह समझता/समझती हूँ कि:

- झूठी या भ्रामक जानकारी देना एक गंभीर अपराध है।
- ऑस्ट्रेलियाई सरकार Department of Human Services आवश्यक प्रासंगिक पूछताछ कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुझे सही पात्रता प्राप्त होती है।

Your signature

आपके हस्ताक्षर



Date

दिनांक

Day/दिन / Month/महीना / Year/साल

Contact phone number

संपर्क फोन नम्बर

Country ( ) Area code ( )  
देश ( ) एरिया कोड ( )

Contact details for the Australian Government Department of Human Services

ऑस्ट्रेलियाई सरकार Department of Human Services के लिए संपर्क विवरण

Telephone number

टेलीफोन नम्बर

**+61 3 6222 3455**

**Note:** Call charges apply – calls from mobile phones may be charged at a higher rate.

**ध्यान दें:** कॉल शुल्क लागू होते हैं – मोबाइल फोन से की जाने वाली कॉलों पर उच्च दर से शुल्क लिया जा सकता है।

Postal address

डाक पता

**Department of Human Services  
International Services  
GPO Box 273  
Hobart TAS 7001  
AUSTRALIA**

Internet address

इंटरनेट पता

**humanservices.gov.au/international**

Fax to

फैक्स

**+61 3 6222 2799**